

नगर पालिका निर्बाचन - 2021

- नगर पालिका निर्गम - मिलाई
- मतदान केंद्र क्रमांक एवं नाम - 186, इंदिरा गांधी
महाविद्यालय वैशाली नगर, कमरात. - 1
- वोर्ड क्रमांक एवं नाम - वोर्ड क्रं. - 25 जवाहर नगर
महाविद्यालय, वैशाली हाऊसिंग बोड
- मतदान केंद्र में समिलित क्षेत्र - अटल आवास रामनगर,
बालिकी आवास, बाम्बे आवास, बसंत बिहार कालोनी,
- मतदान की तिथि - १०.प्रा. स्कूल क्षेत्र
- मतदान दिनांक - 20-12-2021 सोमवार वजेतक
- समय - प्रातः ८ बजे से शाम - ५ बजे तक

कार्यालय कलोकटर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
जिला दुर्ग (छ.ग.)

परिचय पत्र

नाम : शिखा श्रीवारस्तम.

पदनाम : सहायक प्राध्यापक
शा. महाविद्यालय,
तेजाली नगर



कार्यालय : डाकमत्त पत्र कार्य
(अनुच्छान निकारी निर्वाचन अधिकारी ६७ - अहिवारी)

पासवारी का हस्ताक्षर
मो.नं. :- ९९८११५९११६

जारी दिनांक :

28/10/18


उपजिला निर्वाचन अधिकारी
दुर्ग

नोडल अधिकारी
डाकमत्तपत्र शाखा
वि.स.नि.-२०१८, दुर्ग (छ.ग.)

तगर पालिका तिवांचत - 2021

- नगर पालिका निगम - मिलाई
- सतदात केंद्र क्र. एवं नाम - 188, इंदिरा गांधी
महाविद्यालय वैशाली तगर, कम्हा ता. - 2
- वार्ड क्र. एवं नाम - वार्ड क्र. 25 जवाहर तगर
हाऊसिंह बोर्ड
- सतदात केंद्र से सम्मिलित क्षेत्र - IHSDP आवास
ब्लॉक 4 से 6 IHSDP आवास 7 से 8 IHSDP आवास
1 से 10 IHSDP आवास 11 से 14 चंदन पराबाबा दिप
सिंह तगर
- सतदात दिनांक - 20-12-2021 सोमवार
- सतदात का समय - प्रातः 8 बजे से शाम - 5 बजे तक





प्राप्ति विद्या विद्या विद्या विद्या

A woman wearing a pink face mask and a blue and orange sari stands next to another person in front of a blackboard. The blackboard has white text in Hindi: "कोविड-19", "ह दिल्ली विभाग", and "एंबेकरण".

**INDIRA GANDHI GOVT
COMMERCE PG CO
VAISHALI NAGAR, BHILAI (C.G.)**

VATSHALI NAGAR, BHILAI



COVID -



आंगन बाड़ी

केवड़ का नाम - सुमदूर बैरार लोड़ा
• साहारिया • अधिकारी •

उमा साहू • निर्मला साहू

केवड़ नो. ३०
सुमदूर - कोडा उमी कोडा ३०.

इंदिरा गांधी शासकीय महाविद्यालय

वैशाली नगर, भिलाई, दुर्ग (छ.ग.)



राष्ट्रीय सेवा योजना






जन. जागरूकता

कोविड - 19

कोरोना वायरस से बचे के उपाय :-

1. साबून म हाथ ला बार बार धोवव ।
2. खांसत समय, छीकत समय मुह ला ढंकना हें।
3. हो सके तो गरम पानी ला ही पिना हें।
4. जब भी खाना ला खाहू हरियर सब्जी जरूर खाव, हरियर सब्जी के ताकत ये वायरस के बचे में सहायता करही अपन शहर गांव में जोन भी मौमस में फल होथे ओलव भी ध्यान दे के सब ला खाना अउ खिलाना हें।
5. साग रांधे के समय अदरक, लहसून, दाल चीनी, लौंग, कढ़ी पत्ता के उपयोग जरूर करे। ये सब में भी वायरस से बचे के गुण है।
6. कोई प्रकार के नशा आज से नही करना हें जान रही त जहान हें। तुलसी अदरक वाले चाय ही पीवव। वायरस बचे के येमा शक्ति हें।
7. दूध में हल्दी डाल कर ही पीना एवं पिलाना हें। विहनिया बेरा सुध हवा में जरूर टहलो।
8. कही जरूरी काम से निकले बर पड़ेगे तो मास्क नही तो गम्छा ला नाक मुंह मा लपेट के निकलो।
9. गांव में मेला मड़ई, सप्ताहिक बाजार बंद हें फिर भी कोई संगवारी मिलथे त दूरिया दुरिया रहिके बात करना हें।
10. घर में लईका मन के स्कूल कॉलेज बंद हें। ऑनलाईन पढ़ई चलथे पढ़े के बाद लईका कही एती ओती मत होए एखर सेती लईका संग खाना खावव, अच्छा अच्छा गुतुर गुतुर गोठियाव, हसी मजाक करव अच्छा अच्छा अपन धर्म संस्कृति के बारे में लईका ला ज्ञान दो। अपनो तनाव कम होही अउ लईका भी व्यस्त रही ये सुरक्षा के उपाय ला करके अपन अउ अपन परिवार समाज देश ला बचाना हे।

जय जोहार


30.4.2020

डॉ आरती दीवान
विभागाध्यक्ष
गृह विभाग विज्ञान
इ. गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य
स्नातकोत्तर महाविद्यालय
वैशाली नगर भिलाई (छ.ग.)



जृत्यु विशान

महिला सशक्तीकरण
पर आधारित प्रदर्शन
डॉ. अल्पना देशपांडे, आदिती द



